



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022020-216324  
CG-DL-E-22022020-216324

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 20, 2020/फाल्गुन 1, 1941  
No. 72] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 20, 2020/ PHALGUNA 1, 1941

## कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2020

फा.सं. सम्मे. 5(12)2003/हरियाणा/10846.—कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, इसके आगे “योजना” के रूप में संदर्भित, के अनुच्छेद 5 के साथ पठित अनुच्छेद 4 के उप अनुच्छेद (1) के अनुसार तथा केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सम्मेलन 5(12)2003/हरियाणा/11631 दिनांक 23.01.2014 का अधिक्रमण करते हुए, अध्यक्ष, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.), एतद्वारा हरियाणा राज्य के लिए क्षेत्रीय समिति का गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे यथा :—

क्र.सं.	सदस्य का नाम एवं पदनाम	के रूप में नियुक्ति (संबंधित पैरा के अंतर्गत)
1.	अपर मुख्यसचिव, श्रम	अध्यक्ष [अनुच्छेद 4 (1)(ए) के अंतर्गत]
2.	श्रम आयुक्त,	सदस्य जिनकी राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गई [अनुच्छेद 4 (1)(बी) के अंतर्गत]
3.	अपर श्रम आयुक्त	
4.	श्री राकेश गुप्ता, प्रो. एक्यूरेट प्रेसिंग्स, 24ए/2 इंडस्ट्रीयल एरिया, एन.आई.टी. फरीदाबाद 121001 महा सचिव, लघु उद्योग भारती,	

	फरीदाबाद	नियोक्ता के प्रतिनिधि [अनुच्छेद 4 (1)(सी) के अंतर्गत ]
5.	श्री रतन अग्रवाल, वरिष्ठ महा प्रबंधक एवं हेड एच.आर., हीरो मोटोकॉर्प, गुडगांव	
6.	श्री जय प्रकाश कौशिक, विधि सचिव, भारतीय मजदूर संघ।	कर्मचारियों के प्रतिनिधि [अनुच्छेद 4 (1) (डी) के अंतर्गत ]
7.	श्री एस.डी. त्यागी, अध्यक्ष, हिंद मजदूर सभा (हरियाणा राज्य)।	
8.	केन्द्रीय बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य जो आमतौर पर राज्य के निवासी होते।	केन्द्रीय बोर्ड (क.भ.नि.) के गैर-सरकारी सदस्य [अनुच्छेद 4 (1) (ई) के अंतर्गत ]
9.	सुश्री समीरा सलुजा, महा सचिव, कार्यकारी निदेशक, ओरियेंटल इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लि. इंडस्ट्रियल एरिया यमुना नगर एवं महासचिव यमुना नगर जगाधरी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज़।	नियोक्ता के अतिरिक्त सदस्य [अनुच्छेद 4 (1) के परंतुक के अंतर्गत ]
10.	श्री विवेक दत्ता, प्रो. हिन्दुस्तान सिक्कोरिटी	कर्मचारियों के अतिरिक्त सदस्य [अनुच्छेद 4 (1) के परंतुक के अंतर्गत ]
11.	श्री बेचु गिरि, महासचिव एआईटीयूसी (ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस) हरियाणा राज्य ।	
12.	श्री सतबीर सिंह, अध्यक्ष सीआईटीयू (सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स)	
13.	श्री वेद प्रकाश सैनी (9896008337), (बीएमएस) 812/बी-1, रत्नपुर कॉलोनी, पिंजौर हरियाणा।	
14.	श्री जंग बहादुर यादव, (9255297128), (बीएमएस), न्यू बस्ती, ग्राम-बांदिपुर, जिला- सोनीपत, हरियाणा	

- हरियाणा राज्य के प्रभारी अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय समिति, हरियाणा राज्य के सचिव होंगे ।
- क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगा । हालांकि, प्रत्येक सदस्य अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि सरकारी राजपत्र में उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति अधिसूचित नहीं हो जाती ।
- यह तुरंत प्रभाव से लागू होगा ।

सुनील बड़धवाल, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त  
[विज्ञापन-III/4/असा./454/19]

## EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2020

**F. No. Conf. 5(12)2003/HR/10846.**—In accordance with the provisions of sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees' Provident Funds Scheme 1952, hereinafter referred to as "Scheme", and in supersession of the Notification No. Conf. 5(12)2003/HR/11631 dated 23.01.2014 issued by the Central Provident Fund Commissioner, New Delhi, the Chairman, Central Board of Trustees, (EPF) hereby sets up a Regional Committee of the State of Haryana consisting of the following persons, namely:—

Sl. No.	Name & designation of the member	Appointment As (under relevant Para)
1.	Additional Chief Secretary, Labour.	<b>Chairman</b> [Under Para 4(1)(a)]
2.	Labour Commissioner	<b>Members recommended by the State Government</b> [Under Para 4(1)(b)]
3.	Addl. Labour Commissioner	
4.	Shri Rakesh Gupta, Prop. Accurate Pressings, 24 A/2 Industrial Area, NIT Faridabad 121001, Gen. Secretary, Laghu Udyog Bharti, Faridabad.	<b>Employers' Representatives</b> [Under Para 4(1)(c)]
5.	Shri Ratan Agrawal, Sr. GM & Head HR, Hero Motocorp, Gurgaon.	
6.	Shri Jai Prakash Kaushik, Legal Secretary, Bhartiya Mazdoor Sangh.	<b>Employees' Representatives</b> [Under Para 4(1)(d)]
7.	Shri S.D. Tyagi, President, Hind Mazdoor Sabha, (Haryana State).	
8.	The non-official members of the Central Board ordinarily resident in the State.	<b>Non-Official Members of CBT (EPF)</b> [Under Para 4(1)(e)]
9.	Ms. Sameera Saluja, Secretary General, Executive Director, Oriental Eng. Works Pvt. Ltd., I.A. Yamuna Nagar & Sec. Gen. Yamuna Nagar Jagadhari, Chamber of Commerce & Industries.	<b>Additional Employers' Representatives</b> [Under proviso to Para 4(1)]
10.	Shri Vivek Datta, Prop. Hindustan Security.	
11.	Shri Bechu Giri, Gen. Secretary, AITUC (All India Trade Union Congress) Haryana State.	<b>Additional Employees' Representatives</b>  [Under proviso to Para 4(1)]
12.	Shri Satbir Singh, President, CITU (Centre of Indian Trade Unions).	
13.	Shri Ved Prakash Saini (9896008337), (BMS) 812/B-I, Rattpur Colony, Pinjore (HR).	
14.	Shri Jung Bahadur Yadav, (9255297128), (BMS), New Vbasti, Vill-Bandepur, Distt-Sonepat, Haryana.	

2. The Additional Central Provident Fund Commissioner in charge of the State of Haryana shall be the Secretary of the Regional Committee of the State of Haryana.

3. The term of office of the Chairman and every member of the Regional Committee shall be three years commencing on and from the date on which their appointment is notified in the Official Gazette. However, every member shall continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.

4. This will come into force with immediate effect.

**SUNIL BARTHWAL, Central Provident Fund Commissioner**

[ADVT.-III/4/Exty./454/19]